



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 जनवरी, 2021  
माघ 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या 05/2021/45/94-1-2020-312(83)-2015  
लखनऊ, 21 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-30

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से,

(क) नीचे अनुसूची क और ख में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला गाजीपुर में नया निबंधन उप जिला 'कासिमाबाद' सृजित करती हैं और उक्त नव सृजित निबंधन उप-जिला में उप निबंधक, कार्यालय की स्थापना करती हैं, और

(ख) क्रमशः अनुसूची क और ख में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए निबंधन उप जिला 'मुहम्मदाबाद' और 'गाजीपुर सदर' की सीमाओं में परिवर्तन करती हैं:-

## अनुसूची-क

जिला गाजीपुर के निबन्धन उप जिला 'मुहम्मदाबाद' से अपवर्जित किये गए और नवसृजित निबन्धन उप जिला 'कासिमाबाद' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

1	महिपालपुर	35	फरीदपुर	69	मिर्जापुर
2	असना	36	रसूलपुर	70	हेवतपुर
3	दुधौड़ा	37	रामगढ़	71	सिधागर
4	मेहरौड़	38	जयरामपुर	72	दुर्गास्थान
5	बंगालपुर	39	त्रिलोकचन्द्रपुर	73	सवना
6	चकसिया	40	भैसडा मु० सुरवत	74	कागजीपुर
7	पिल्कुआं खास	41	मौजपुर	75	डुमराव उर्फ भटवलिया
8	पिल्कुआं किशुन	42	महुवी बांध	76	चैरा
9	साधापुर	43	सेनहुआ	77	डारी चक
10	चेरुइयां	44	रुकन्दीपुर	78	करमा
11	पाली	45	सलामतपुर	79	गाजीपुर
12	सहदेउरा मु० पाली	46	महादेवा	80	रोहिली
13	बभनौली	47	मीरानपुर	81	जुरवट
14	चतुरपुरा	48	दैवली	82	चकमीर मुहम्मद
15	सहदेउरा मु० सुरवत	49	भैसडा मु० देवली	83	विजवां
16	ऐमा पट्टी	50	फगुवाड़	84	हृदयपुर
17	नसीरपुर मु० सुरवत	51	गोपालपुर	85	गोवर्धनपुर
18	चक खोदाई	52	महुवारी	86	फिरोजपुर
19	नसीरपुर पाली	53	गोरया	87	खालिसपुर
20	मुहम्मदपुर कुसुम	54	गोरही	88	शक्करपुर
21	कुसुम	55	बड़ौरा	89	धरवारा कलां
22	अवराकोल	56	मरदानपुर	90	धरवारा खुर्द
23	खैरा	57	महुवारी नकदू	91	टोडार
24	बहादुरगंज	58	उलार	92	कुतुबपुर
25	अब्दुलपुर	59	सिधउत	93	चावनपुर गनी
26	बांकाखास	60	करनल पट्टी	94	चक अब्दुल रसूल
27	आराजी बांका चक अचवल	61	मुबारकपुर खेदू	95	सुल्तानपुर
28	आराजी बांका चक दोयम	62	सुल्तानपुर	96	बुढानपुर
29	पट्टीगढ मु० अब्दुलपुर	63	राजापुर	97	सहावलपुर
30	पट्टीगढ मु० बहादुरगंज	64	पाह खुदावन्त	98	खिजिरपुर
31	सिउरा	65	शहबाजपुर	99	पाण्डेय कटयां
32	सातनपुर	66	कहरार	100	चकदामोदर
33	बलुआ खालिसपुर	67	पाह खरखानन्द	101	नसीरपुर वसारिक
34	पालपुर	68	बेरूकही	102	सराय नसीरूद्दीनपुर

103	मुहम्मदपुर	140	खजुहां	177	क्यामपुर
104	शेखनपुर	141	फहीमपुर	178	खानपुर
105	इमामुद्दीनपुर	142	सिधारी	179	चिरैया
106	जमीरमुहम्मद शाह	143	उचैरी	180	रसूलपुर
107	केरवना	144	मुहम्मदपुर	181	मुहम्मदपुर सैयद
108	कवलपट्टी	145	अहिरूपुर	182	डांही
109	नारायणपुर	146	बहरामपुर	183	महिउद्दीनपुर
110	जीयनपुर	147	चन्ददेहरा	184	बरहता
111	बहराईच	148	फतेहपुर	185	उपधी
112	नगवां उर्फ सोनबरसा	149	कमालपुर मु0 सोनबरसा	186	हरदासपुर
113	मकदुमपुर	150	नगवां	187	हसनपुरा
114	खेताबपुर	151	चक वक्सर	188	शेखअहमदपुर
115	दाऊदपुर	152	यहियापुर	189	शक्करपुर कलां
116	चावनपुर कोडर	153	परजीपाह	190	चरयां
117	नसीराबाद	154	कटयां लहंग	191	चकसिकन्दर
118	नसीरुद्दीनपुर	155	भदसा	192	सलेमपुर
119	जोगापुर	156	शेखपुर मु0 सिधउत	193	बदरपुर
120	नसोपुर	157	खालिसपुर	194	मोलनापुर
121	बारापुर	158	मोहिउद्दीनपुर	195	बदरपुर बहाउद्दीन
122	राजापुर	159	परसुपुर	196	दहीगना
123	हब्बीपुर	160	झिंगुरी	197	सुतिहार
124	सुरवत	161	जलालपुर	198	चकशाहगालिब
125	वजीरपुर	162	उदईपुर	199	रेंगा
126	नेवाजपुर	163	महरूपुर	200	खिजिरपुर मु0 रेंगा
127	मरहुआं	164	राजापुर कलां	201	शहबाजपुर
128	टइवां	165	राजापुर खुर्द	202	सलेमपुर
129	मुहम्मदपुर मु0 सुरवत	166	चिलविली	203	फतेसराय
130	सोनबरसा उर्फ कासिमाबाद	167	जगदीशपुर	204	उरेंव
131	सुकहां	168	उरहां	205	बठना
132	कोडरा	169	भगवल	206	रजईपुर
133	बडागांव	170	भटवालिया	207	शहाबुद्दीनपुर
134	मेख	171	ढौलीपुर	208	कादीपुर
135	मिर्जापुर	172	गंगौली	209	बेनीपुर मु0 खानपुर
136	तफुरपुर	173	हसनपुर	210	मुबारकपुर नेत
137	दशवंतपुर	174	धरवां	211	मकसुदनपुर
138	विशुनपुर	175	कमालपुर बुजुर्ग	212	बीरमसराय
139	जामापुर	176	मकसुदनपुर	213	चकजैनब

214	चकबतूल	251	हुन्डरही	288	गौरा
215	सुरजीपट्टी	252	मुबारकपुर मनोरथ	289	सोनबरसा
216	चकमुकरी	253	कादीपुर	290	सिउरी
217	चकदरिया	254	डाही	291	मुहम्मदपुर
218	मलिपुरा	255	धवरहरा	292	परानपुर
219	कुरथौरा	256	रसूलपुर	293	डिहवां
220	तिलकपुर	257	कमालपुर	294	हैदरपुर
221	मुहम्मदपुर रज्जाक	258	खिजिरपुर	295	हरिपुर
222	मुस्तफाबाद	259	इनायतपुर	296	क्यामपुर
223	जहुराबाद	260	इब्राहिमपुर खुर्द	297	रामपुर
224	शक्करपुर खुर्द	261	इब्राहिमपुर कलां	298	हुस्सेपुर
225	चकरौजा	262	सिउरीडीह	299	आवादान उर्फ बैरान
226	मझौवा	263	गोविन्दपुर	300	मिरजापुर
227	दाऊदपुर	264	मुसल्लहपुर	301	करवदियां
228	लोहवां	265	सिरवर	302	सरौली
229	हसनपुर गोरा	266	टोडरपुर	303	पैगम्बरपुर उर्फ चालाकपुर
230	गोरा खुर्द	267	बनवारपुर	304	जागोपुर
231	पहाड़पुर अम्बर	268	शाहपुर	305	लाखा
232	नदुला	269	होरिलपुर बरेसर	306	गजराज गदाईपुर
233	बड़ागांव	270	ढोलीपुर	307	गडेसर
234	जगदीशपुर मु0 दहेन्दू	271	खानपुर	308	हिसामुद्दीनपुर
235	जगदीशपुर मु0 शहबाजपुर	272	बुढानपुर	309	दुल्लमपुर
236	मुबारकपुर	273	चमरूपुर	310	ब्रम्हदासपुर
237	मिश्रौली	274	इब्राहिमपुर	311	पुरनपुर
238	मुहम्मदपुर मु0 सागापाली	275	नुवांव	312	भदेसर
239	बरेसर	276	मामपुर	313	नसीरुद्दीनपुर
240	दरियापुर	277	बन्दरपुर	314	फैजुल्लाहपुर
241	औरंया भवदास	278	बरियारपुर माफी	315	रजौली
242	दामोदरपुर	279	परसुपुर	316	चकवाकर रजेला
243	भागीपुर	280	फजलगंज	317	राजापुर
244	जयरामपुर भगवल	281	भोपतपुर	318	शक्कापुर
245	हाजीपुर बरेसर	282	शाहपुर उसरी	319	सिंहनी
246	सिपाह	283	जलालपुर	320	कबीरपुर खागजी
247	चकहेतिम	284	बासदेवपुर	321	सिउरी
248	अलावलपुर अफंगा	285	गठिया	322	अमहट
249	मुबारकपुर नेत	286	मठियाराजपुर	323	भीखम अमहट
250	दरियापुर अगाई	287	उसमानपुर	324	मुबारकपुर जुगन्

325	जगदीशपुर	360	मुहम्मदपुर	395	देवाड निस्फी
326	अमवां सिंह	361	जगजीवनपुर	396	अन्धैरा खुर्द
327	हटवार दयाल सिंह	362	लखनौली	397	पहाडपुर
328	आतमपुर	363	ढोढहा	398	चोथूबांध
329	मुहम्मदपुर	364	रामपुर	399	नकवीरपुर
330	करारी	365	बरेजी	400	अलावलपुर
331	अमवां आकसरन	366	मनीरपुर	401	गद्धोपुर
332	चकराजशाही	367	खारा	402	कौवाबांध
333	तिवारीपुर	368	सहसुआ	403	सुरेमनपुर
334	अयाजपुर	369	बन्धई	404	सिसई तौफिर
335	जोगीपुर	370	नसीरपुर चकदारून	405	गोपालपुर
336	अतौली	371	कटसर	406	हाजीपुर
337	मनउ	372	चकहनुमत	407	रायपुर
338	सलेमपुर	373	मुबारकपुर खेदू	408	मुबारकपुर
339	इंगलिसपुर	374	बेनीपुर	409	रामपुर
340	अजीजपुर	375	गौरतियरा	410	गोसाईपुर
341	हटवार दयाल सिंह	376	मौजपुर	411	सिकन्दरपुर
342	शेरपुर ढोढरी	377	चावनपुर जलाल	412	मिश्रौली
343	मनसिहां	378	जलालाबाद	413	कटरिया
344	सागापाली मुरार सिंह	379	आलमपट्टी	414	नसीरपुर
345	इब्राहिमपुर	380	भोपतपुर	415	इन्दरपुर
346	सागापाली दयाल सिंह	381	सेमउर	416	मौना
347	औरयां हुसाम	382	जीतनपुर	417	मुहम्मदपुर उर्फ माधोपुर
348	इब्राहिमपुर खुर्द	383	जमीरा	418	सहजरामपुर
349	पिन्डारी	384	बीरभानपुर	419	सैयद खानपुर
350	सागापाली	385	शाहमुहम्मदपुर	420	महेशपुर कलां
351	मुबारकपुर सिपाह	386	मानिकचन्दपुर	421	इब्राहिमपुर
352	हुसेनाबाद	387	अहिरौली	422	चकशरीफ
353	होरिलपुर श्याम	388	बहोरनपुर	423	चकअवुतालिब
354	दहेन्दू	389	विद्यापुर	424	जानूपुर
355	पाह बरेसर	390	नसीराबाद	425	बरार
356	टोडरपुर	391	मुसेपुर	426	माधोपुर
357	मांटा	392	दिलशादपुर	427	सम्मनपुर
358	अकबरपुर	393	बढईपुर		
359	पहाडपुर	394	बीरसिंहपुर		

## अनुसूची-ख

जिला गाजीपुर के निबन्धन उप जिला 'गाजीपुर सदर' से अपवर्जित किये गए और नवसृजित निबन्धन उप जिला 'कासिमाबाद' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची:-

1	इन्दौर	25	रायपुर बाघपुर	49	हरिहरपुर
2	बेलसडी	26	करदह कैथवली	50	तांती
3	खजुरगांव	27	सरार उर्फ हैदरगंज	51	धनेशपुर रामपुर मय खालिसपुर
4	मठिया	28	मटेंह	52	तालनादह
5	मडही	29	बदौली आराजी माफी	53	नसीरपुर रतनचन्द्र
6	शंकरपुर	30	गाई	54	बदौली माफी
7	गेहुडी	31	भटौना	55	नखतपुर
8	कोदई	32	टिसौरी	56	डण्डवर
9	तेजपुरा	33	चवंर	57	बदौली
10	फेफरा	34	कस्तुआ	58	नेवादा
11	डोडसर	35	बहतुरा	59	पिपनार
12	किशुनपुर	36	कलानी	60	बहाद्दीनपुर
13	नोनरा	37	रजौली	61	भोजापुर
14	पंडिता	38	घरिहां	62	पान्डेयपुर सुरजन
15	दुरखुशी	39	बसवारी	63	मुस्तफाबाद
16	तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर	40	सिहोरा	64	मिर्जापुर
17	मरदह	41	ढोटारी	65	चैथी
18	कन्सहरी	42	बिजौरा	66	केलही
19	कबीरपुर	43	हमीरपुर	67	कोर
20	बीजवनपुर	44	भीखमपुर	68	हरकरनपुर
21	आराजी घुरामा	45	कोडरी	69	लहुरापुर
22	सोनबरसा	46	नसीरपुर कोडरी	70	जमुआरी
23	सिंगेरा	47	गहली बसारिकपुर	71	बहलोलपुर
24	सेवठा	48	जगतपुर		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसने जब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 05/2021/45/94-1-2020-312(83)-2015, dated January 21, 2021:

No. 05/2021/45/94-1-2020-312(83)-2015

*Dated Lucknow, January 21, 2021*

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to,

(a) create a new registration sub-district 'KASIMABAD' in district 'GHAZIPUR' by including revenue Villages given in the Schedule (A) and Schedule (B) below, and establish an office of the Sub-Registrar in the said newly created registration Sub-district; and

(b) alter the limits of Registration sub-districts of 'MOHAMMADABAD' and 'GHAZIPUR SADAR' by excluding the areas of revenue Villages given in Schedule (A) and Schedule (B) respectively with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

SCHEDULE-A

List of revenue Villages excluded from Registration sub-district Mohammadabad and included in the newly created Registration sub-district Kasimabad in district Ghazipur:

1	Mahipalpur	23	Khaira	44	Rukundipur
2	Asna	24	Bahadurganj	45	Salamatpur
3	Dudhaura	25	Abdulpur	46	Mahadeva
4	Meharaud	26	Banka Khas	47	Miranpur
5	Bangalpur	27	Araji Banka Chak Awwal	48	Dewali
6	Chaksiyan	28	Araji Banka Chak Doyam	49	Bhaisada Mutlke Dewali
7	Pilkuaan Khas	29	Pattigarh Matlke Abadulpur	50	Phaguwad
8	Pilkuaan Kishun	30	Pattigarh Matlke Bahadurganj	51	Gopalpur
9	Sadhapur	31	Siura	52	Mahuwari
10	Cheruiyan	32	Satanpur	53	Goraya
11	Pali	33	Baluaa Khalisapur	54	Gotahi
12	Sahadeura Mutlke Pali	34	Palppur	55	Badaura
13	Babhanauli	35	Faridanpur	56	Mardanpur
14	Chaturpura	36	Rasulpur	57	Mahuwari Nakdu
15	Sahadeura Mutlke Surwat	37	Ramgarh	58	Ular
16	Ema Patti	38	Jayampur	59	Sidhaut
17	Naseerpura Mutlke Surwat	39	Trilokchanpur	60	Karanal Patti
18	Chak Khodai	40	Bhaisada Mutlke Surwat	61	Muabarakpur Khedu
19	Naseerpur Pali	41	Maujpur	62	Sultanpur
20	Muhammadapur Kusum	42	Mahuvi Bandh	63	Rajapur
21	Kusum	43	Senhuaa	64	Pah Khudavand
22	Awarakol			65	Shahabajpur

66	Baharar	103	Mahamudpur	139	Jamapur
67	Pah Harakhanand	104	Shekhanpur	140	Khajuha
68	Berukahi	105	Emamuddinpur	141	Fahimpur
69	Mirjapur	106	Jamirmuhammad Shah	142	sidhari
70	Haiwatpur	107	Kerwana	143	Uchauri
71	Sidhagar	108	Kawalpatti	144	Mohammadpur
72	Durgasthan	109	Narayanpur	145	Ahirupur
73	Sawna	110	Jiyanpur	146	Baharampuu
74	Kagajipur	111	Bahraich	147	Chanddhara
75	Dumraw <i>Urf</i> Bhatwaliya	112	Nagawa <i>Urf</i> Sonvarsa	148	Fatehpur
76	Chaura	113	Makdupur	149	Kamalpur Mutlkr Sonwarsa
77	Dari Chak	114	Khetabpur	150	Nagawa
78	Karma	115	Daudpur	151	ChakWaksan
79	Ghazipur	116	Chawanpur Kodar	152	Yahiyapur
80	Rohili	117	Naseerabad	153	Parjipah
81	Jauwat	118	Naseriddinpur	154	kataya Lahang
82	Chakmeer Muhammad	119	Jogapur	155	Bhadsa
83	Vijawa	120	Nasopur	156	Shekhupur Mutlke Sidhaut
84	Hridaypur	121	Barapur	157	Khalispur
85	Gowerdhanpur	122	Rajapur	158	Mohiuddinpur
86	Firojpur	123	Habbipur	159	Parasupur
87	Khalispur	124	Surwat	160	Jhinguri
88	Shakkarpur	125	Wajirpur	161	Jalalpur
89	Dharwara Kala	126	Newajpur	162	Udaiepur
90	Dharwara Khurd	127	Marahuan	163	Maharupur
91	Todar	128	Tadawa	164	Rajapurn Kala
92	Kutubpur	129	Mohammadpur Mutlke Surwat	165	Rajapurn Khurd
93	CVhawanpur Gani	130	Sonwarsa <i>Urf</i> Kasimabad	166	Chilvili
94	Chak Abdul Rasul	131	Sukaha	167	Jagdishpur
95	Sultanpur	132	Kodara	168	Uraha
96	Budhanpur	133	Badagaon	169	Bhangwal
97	Sahawalpur	134	Mekh	170	Bhalwaliya
98	Khijirpur	135	Mirjapur	171	Dholipur
99	Pandey Jatya	136	Tafurpur	172	Gangauli
100	Chak Damodar	137	Dashwantpur	173	Hasanpur
101	Naseerpurvasarik	138	Vishunpur	174	Dharwa
102	Sarai Nasiruddinpur				



175	Kamalpur Bujurg	212	Beeramsarai	246	Sipah
176	Maksudanpur	213	Chak Jainab	247	Chakhetim
177	Kyampur	214	Chak Batool	248	Alawalpur Afanga
178	Khanpur	215	Surajipatti	249	Mubarakpur Net
179	Chiraiya	216	Chakmukari	250	Dariyapur Agaie
180	Rasulpur	217	Chakdariya	251	Hundarahi
181	Mohammadpur Saiyyad	218	Malikpura	252	Mubarakpur Manorath
182	Dahi	219	Kurthaura	253	Kadipur
183	Mahiuddinpur	220	Tilakpur	254	Dahi
184	Barhata	221	Muhammadpur Rajjak	255	Dhawrahara
185	Updhi	222	Mustafabad	256	Rasulpur
186	Hardaspur	223	Jahoorabad	257	Kamalpur
187	Hasanpura	224	Shakkarpur Khurd	258	Khijirpur
188	Shekhahamadpur	225	Chak Rauja	259	Inayatpur
189	Shakkarpur Kala	226	Majhauwa	260	Ebrahimpur Khurd
190	Charya	227	Daudpur	261	Ebrahimpur Kala
191	Chaksikandar	228	Lohawan	262	Siuridih
192	Salempur	229	Hasanpur Gora	263	Govindpur
193	Badarpur Chand	230	Gora Khurd	264	Musallahpur
194	Molanapur	231	Pahadpur Ambar	265	Sirwar
195	Badarpur Bahauddin	232	Nadula	266	Todarpur
196	Dahigana	233	Badagaon	267	Banwarpur
197	Sutihar	234	Jagdishpur Mutlke Dehendu	268	Shahpur
198	Chakshahgalib	235	Jagdishpur Mutle Shahabajpur	269	Horilpur Baresar
199	Renga	236	Mubarakpur	270	Dholipur
200	Khijirpur Mutlke Renga	237	Mishrauli	271	Khanpur
201	Shahabajpur	238	Muhammadpur Mutlkr Sagapali	272	Budhanpur
202	Salempur	239	Baresar	273	Chamrupur
203	Fatehsarai	240	Dariupur	274	Ebrahimpur
204	Uraiev	241	Aurainya Bhawdas	275	Nuwav
205	Bathna	242	Damodarpur	276	Mampur
206	Rajaipur	243	Bhagipur	277	Bandarpur
207	Shahabuddinpur	244	Jayrampur Bhangwal	278	Bariyarpur Mafi
208	Kadipur	245	Hajipur Baresar	279	Parsupur
209	Benipur Mutlke Khanpur			280	Fajalganj
210	Mubarakpur net			281	Bhopatpur
211	Masudanpur			282	Shahpur Usari

283	Jalalpur	319	Singhani	354	Dahendu
284	Basdevpur	320	Kabirpur Khagji	355	Peh baresar
285	Gathiya	321	Siuri	356	Todarpur
286	Mathiyarajpur	322	Amhat	357	Manta
287	Usmanpur	323	Bhikham Amhat	358	Akbarpur
288	Gaura	324	Mubarakpur Jugunu	359	Pahadpur
289	Sonwarsa	325	Jagdishpur	360	Muhammadpur
290	Siuri	326	Amwa Singh	361	Jagjiwanpur
291	Muhmudpur	327	Hatwar Dayal Singh	362	Lakhnauli
292	Paranpur	328	Aatampur	363	Dhodha
293	Dihawa	329	Muhmudpur	364	Rampur
294	Haidarpur	330	Karari	365	Bareji
295	Haripur	331	Amwa Aaksaran	366	Manirpur
296	Kyampur	332	Chakrajshahi	367	Khara
297	Rampur	333	Tiwaripur	368	Sahasuaa
298	Hussepur	334	Ayajpur	369	Bandhai
299	Awadan <i>Urf</i> Bairan	335	Jogipur	370	Naseerpur Chakdarun
300	Mirjapur	336	Atauli	371	Katsar
301	Karwadiya	337	Manau	372	Chak hanumat
302	Sarauli	338	Salempur	373	Mubarakpur Khedu
303	Paigamberpur <i>Urf</i> Chalakupur	339	Englisipur	374	Benipur
304	Jagopur	340	Ajijpur	375	Gaurtiyara
305	Lakha	341	Hatwar Kayal singh	376	Maujapur
306	Gajraj Gadaipur	342	Sherpur Dhodhari	377	Chawanpur Jalal
307	Gadesar	343	Mansiha	378	Jalalabad
308	Hisamuddinpur	344	Sagapali murar Singh	379	Aalam Patti
309	Dullampur	345	Ebrahimpur	380	Bhopatpur
310	Bramhadaspur	346	Sagapali Dayal Singh	381	Semaur
311	Puranpur	347	Aauraya Husam	382	Jitanpur
312	Bhadesar	348	Ebrahimpur Khurd	383	Jameera
313	Naseeruddinpur	349	Pindari	384	Virbhanpur
314	Faijullahpur	350	Sagapali	385	Shahmuhammadpur
315	Rajauli	351	Mubarakpur Sinpah		
316	Chakwakar Rajela	352	Husenabad		
317	Rajapur	353	Horilpur Shyam		
318	Shakkapur				

386	Manikchandpur	401	Gaddopur	416	Mauna
387	Ahirauli	402	Kauwbandh	417	Muhammadpur <i>Urf</i> Madhopur
388	Bahoranpur	403	Suremanpur	418	Sahajrampur
389	Vidhyapur	404	Sisai Taufir	419	Saiyad Khanpur
390	Maseerabad	405	Gopalpur	420	Maheshpur Kala
391	Musepur	406	Hajipur	421	Ebrahimpur
392	Dilshad	407	Raipur	422	Chaksharif
393	Badhaipur	408	Mubarakpur	423	Chak Avutalib
394	Veersinghpur	409	Rampur	424	Janoonpur
395	Dewad Nisphi	410	Gosaiपुर	425	Barar
396	Andhaura Khurd	411	Sikandarpur	426	Madhopur
397	Pahadpur	412	Mishrauli	427	Sammanpur
398	Chothoobandh	413	Katariya		
399	Makawipur	414	Maseerपुर		
400	Alawalpur	415	Indarpur		

SCHEDULE-B

List of revenue villages excluded from registration sub-district Ghazipur Sadar, and included in the newly created registration sub-district Kasimabad in District Ghazipur:

1	Indaur	17	Mardah	33	Chawar
2	Belsadi	18	Kanshari	34	Kastuwa
3	Khajurgaon	19	Kabirपुर	35	Bahatura
4	Mathiya	20	Beejwanपुर	36	Kalani
5	Marahi	21	Aaraji Ghurma	37	Rajauli
6	Shankarpur	22	Sonwarsa	38	Ghariha
7	Gehudi	23	Singera	39	Baswari
8	Kodai	24	Sewatha	40	Sihora
9	Tejpura	25	Raipur Baghpur	41	Dhotari
10	Fefara	26	Kardah Kaithwali	42	Bijaura
11	Dodsar	27	Sarar <i>Urf</i> Haidarganj	43	Hameerपुर
12	Kishunपुर	28	Matenhu	44	Bhikhampur
13	Nonra	29	Badauli Aaraji Mafi	45	Kodari
14	Pandita	30	Gai	46	Naseerपुर Kodari
15	Durkhushi	31	Bhatauna	47	Gahali Basarikपुर
16	Tavakkalपुर <i>Urf</i> Dandapur	32	Tisauri	48	Jagatपुर

49	Hariharpur	56	Dandwar	64	Mirjapur
50	Tanti	57	Badauli	65	Chauthi
51	Dhaneshpur Rampur May Khalispur	58	Newada	66	Kelahi
52	Talnadah	59	Pipnar	67	Kor
53	Naseerpur Ratanchan	60	Bahauddinpur	68	Harkaranpur
54	Badauli Mafi	61	Bhojapur	69	Lahurapur
55	Nakhatpur	62	Pandeypur Surjan	70	Jamuaari
		63	Mustafabad	71	Bahlolpur

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall effect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,  
VEENA KUMARI,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 684 राजपत्र-2021-(1346)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 13 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2021-(1347)-150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।